



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2846]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2015/पौष 10, 1937

No. 2846]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2015/PAUSA 10, 1937

## नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2015

**का.आ. .**—जबकि मैसर्स पवन हंस लिमिटेड का हेलीकॉप्टर एन3 पर डॉफिन एस365 प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दिनांक 04.11.2015 को मुंबई (बाम्बे हाई) अप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त दुर्घटना की तत्काल जांच करने तथा इस गंभीर दुर्घटना के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने हेतु सिफारिशें करने के लिए जांच कराई जाए।

अब वायुयान नियमावली, 2012 के नियम 11(1) (दुर्घटना तथा घटना की जांच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त गंभीर दुर्घटना की औपचारिक जांच की जाए।

तदनुसार, केन्द्र सरकार दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच करने हेतु श्री आर.एस. पासी, उप निदेशक, एएआईबी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की जांच समिति नियुक्त करती है :

- (i) श्री जसबीर सिंह लारहगा, सहायक निदेशक, एएआईबी, सचिव
- (ii) कैप्टन वी.एम. सतीश कोइकल, सदस्य

जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी। समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को छः महीने में भीतर प्रस्तुत करेगी।

[सं. एवी. 15029/115/2015-डीजी]

बी. एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 23rd November, 2015

**S.O. .**—Whereas M/s. PHL Dauphin AS 365 N3 helicopter VT-PWF during training flight met with an accident off shore Mumbai (Bombay High) on 04.11.2015.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said accident and make recommendations to avoid recurrence of such accidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11 (1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry in the accident be made.

Accordingly, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry headed by Sh. R. S. Passi, Deputy Director, AAIB with following members :

(i) Sh. Jasbir Singh Larhga, Assistant Director, AAIB as Secretary

(ii) Capt. V. M. Satish Koikal as member

The Committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.

[No. AV-15029/115/2015-DG]

B. S. BHULLAR, Jt. Secy.